

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।  
अपील संख्या:- 251/2019 (जीसीएमएस 2019/00158)

1. नगर विकास न्यास जरिये सचिव, जिला अलवर।
2. भूमि आवप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर जरिये प्रभारी अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर।

— अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. सोम्य जैन पुत्र श्री राकेश जैन निवासी मालीवाड़ा, वार्ड नम्बर 4, फिरोजपुर झिरका, जिला नूँह मेवात, हरियाणा।

—असल रेस्पोडेन्ट

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, अलवर जिला अलवर, राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री विजय सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश सतीजा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक: 06.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 27 ऐयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 30 ऐयर, खसरा नम्बर 654 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 655 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 656 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 660 रकबा 4 ऐयर वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित है जिसे रोहिनी नगर आवास योजना के तहत आवाप्त की गई थी, इस प्रकार भूमि आवाप्तशुदा भूमि है जिस आदेश को आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और आवाप्ति आदेश की पालना में ही इन्तकाल संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 को दर्ज व तस्दीक किया गया था लेकिन तहत न्यायालय ने इस सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 पारित किया है जो काबिल गौर श्रीमान है। उन्होने आगे कथन किया है कि जब तक आवाप्ति आदेश बहाल है और आवाप्ति आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता तब तक इन्तकाल को निरस्त करने का अधिकार तहत न्यायालय को नहीं था क्योंकि इन्तकाल आवाप्ति के आधार पर ही खोला गया था और आवाप्ति आदेश को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसके सम्बन्ध में तहत न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से नजीरे भी प्रस्तुत की गई लेकिन उनका कोई विवेचन तहत न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और मनमाने तरीके पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कहा गया है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही के किसी मामले में जहां तक उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पांच साल के बराबर या उससे अधिकपूर्ण अधिनियम (अवार्ड) किया गया है किन्तु भूमि का

P.T.O.

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकार का संदाय नहीं किया गया है तो उक्त कार्यवाही के बारे में यह समझा जायेगा कि वह लेप्स हो गई है उक्त विवेचन तहत् न्यायालय का कानून के विपरित है जबकि धारा 24 (2) सन् 2013 के प्रावधानों के सम्बन्ध में एस एल पी सिविल नं. 37375 सन् 2016 बउनवान दिल्ली डवलपमेन्ट ऑथोरिटी बनाम विरेन्द्र लाल वगैरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय दिनांक 27.02.2019 को लार्जर बैच को रैफर किया है इससे स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के तहत् जो धारणा तहत् न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विवेचित की गई है वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तहत् न्यायालय का यह निष्कर्ष की पांच साल की अवधि के पश्चात् आवाप्ति की कार्यवाही स्वतः ही लेप्स हो जाती है नितान्त गलत है लेकिन तहत् न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी निर्णय का विवेचन नहीं कर कानूनी गलती हैं। उन्होने कथन किया है कि नगर विकास न्यास अलवर के नाम इन्तकाल संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 को तरतीबी रेस्पोजेन्ट द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया तब से आज तक राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी नगर सुधार न्यास, अलवर के नाम से दर्ज चली आ रही है तथा उक्त आराजी का अवार्ड जारी किया जा चुका है और जिस आदेश से इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया गया वह आवाप्ति आदेश आज भी बहाल है लेकिन असल-रेस्पोजेन्ट द्वारा बदयनियती पूर्वक इन्तकाल संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 के विरुद्ध 6 साल बाद तहत् न्यायालय में अपील दायर की गई जो अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण भी दर्ज नहीं किया गया जिससे कि उनकी अपील को अन्दर मियाद करार दी जा सके लेकिन तहत् न्यायालय ने अपील अन्दर मियाद मानते हुए इन्तकाल संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 को निरस्त करते हुए असल-रेस्पोजेन्ट की अपील स्वीकार की है जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में आवाप्ति की कार्यवाही सन् 2013 में पारदर्शिता अधिकार अधिनियम की धारा 24(2) में प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत् आरम्भ की गई थी जिस आराजी का अवार्ड भी जारी हो चुका है साथ ही इन्तकाल संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 को अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक भी किया जा चुका था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर बदस्तूर बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के कब्जे, काश्त खातेदारी की आराजीखसरा नम्बर 237 रकबा 27 ऐयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 30 ऐयर, खसरा नम्बर 654 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 655 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 656 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 660 रकबा 4 ऐयर वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित है जिसके खातेदार महेश चन्द पुत्र श्री मनोहरलाल जाति महाजन निवासी जत्ती की बगीची अलवर

  
समान्य आयुक्त  
जयपुर

हाल निवासी मौहल्ला ब्रहमचारी अलवर द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 14.03.2011 के द्वारा श्री रवि कुमार पुत्र श्री मोतीलाल, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 4 फिरापुर झिरका नूँह मेवात को विक्रय किया गया एवं उक्त रवि जैन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी को जरिये बैयनामा दिनांक 14.03.2011 से खरीद किया गया है एवं बाद खरीद से उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बेशकीमती रकम खर्च करके चारदीवारी व मकानात का निर्माण किया एवं बाद खरीद से रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है एवं मुताबिक बैयनामा इन्तकाल दर्ज कराये जाने के लिये तहसीलदार के यहाँ पर भी आवेदन कर दिया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं उक्त आराजी को अपीलान्ट नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त से मुक्त होने के उपरान्त भी अपना नाम राजस्व रिकार्ड इन्तकाल में दर्ज कराया गया है जो इन्द्राज काबिले मसूखी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त विधि विरुद्ध नगर विकास न्यास के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 978 की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट ने अध्यक्ष नगर विकास न्यास को निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 978 जो नगर विकास न्यास के नाम पर विधि विरुद्ध दर्ज हो गया है उसे निरस्त करवाया जावे लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निवेदन पर कतई गौर नहीं किया। उन्होंने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा रोहणी नगर आवासीय योजना को सम्पूर्ण रूप से डी-नोटीफाईड कर दिया जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञापित प्रकाशित कराई गई थी उसके बावजूद अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्ट के नाम गलत तरीके पर नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार किया है जबकि मौके पर कोई जांच नहीं की गई और ना ही मौका देखा गया और ना ही काबिज व्यक्तियों को सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर प्रदान किया एवं तहसीलदार द्वारा लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियमों को नजरअन्दाज करते हुये नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण भी नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.10.2004 को संध्य ज्योति समाचार पत्र में एक विज्ञापित का प्रकाशन कराया "विज्ञापित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा रोहणी बहुउद्देशीय योजना व एम. आई. योजना (मत्स्य आवास योजना) हेतु भूमि अवाप्ति की जा रही है, अब न्यास उक्त योजना की भूमि अवाप्त नहीं करना चाहती है उक्त योजना को अवाप्ति से मुक्त करने के सम्बन्ध में किसी हितधारी, व्यक्ति/संस्था, खातेदार को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में अन्दर-अन्दर अपने आक्षेप न्यास कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा 15 दिवस की मियाद गुजरने के पश्चात् यह माना जावेगा कि उक्त बाबत आपको कोई एतराज नहीं है।" इस विज्ञापित की सूचना को रेस्पोडेन्ट ने पढ़ा हो और अवाप्ति से मुक्त करने बाबत रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं थी और रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि को अवाप्ति से मुक्त ही चाहता था इस कारण से रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई लेकिन अपीलान्ट नगर विकास न्यास ने विधि विरुद्ध तरीके से अपने नाम उक्त नामान्तरकरण दर्ज करवाया है जिस आधार पर भी नामान्तरकरण संख्या 978 खारिज योग्य ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि पूर्व भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उस आराजी के सम्बन्ध में जिसका मुआवजा नहीं दिया गया है तथा कब्जा अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया


P.T.O.

जयपुर


गया है ऐसी सूरत में पूर्व में आवाप्ति की गई कार्यवाही नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के मुताबिक स्वतः ही लैप्स हो गई। जिसके आधार पर भी नामान्तरकरण संख्या 978 निरस्तनीय ही था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 978 वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर की छाया प्रति के अवलोकन जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण आवाप्ति आदेश की पालना में तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त अवार्ड एवं आवाप्ति प्रक्रिया को सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया प्रतीत होता हो जबकि अपीलान्त ने अपने पत्रांक 88/20 दिनांक 31.12.2020 द्वारा अवगत कराया है कि न्यास की रोहिणी नगर योजना व एम.आई.नगर योजना अवाप्त शुदा व प्रभावी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की आवाप्ति की पालना में दर्ज व स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 978 ग्राम देसूला को निरस्त किये जाने के टोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2019 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 978 वाके ग्राम देसूला पर तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2012 को बहाल किया जाता है।

  
(विकास एस भादे)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।